



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 438] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 1982/आश्विन 8, 1904  
No. 438] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 1982/ASVINA 8, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक विकास विभाग)

आवेश

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1982

का. आ. 698(अ)/18कक/औ.वि.वि.अ./82.—भारत सरकार के भूतपूर्व  
औद्योगिक विकास मंत्रालय के (समय-समय पर यथामशोर्धित आदेश सं.  
का. आ. 22(अ)/18कक/औ. वि. वि. अ./73, तारीख 15 जनवरी, 1973 द्वारा  
श्री जानकी शर्मा मिल्स एण्ड कंपनी, दोहवाला, जिला देहरादून (उत्तर प्रदेश)  
नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम,  
1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उपधारा (1) के अधीन 30 सितम्बर,  
1982 तक, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया  
गया था, और उत्तर प्रदेश स्टेट शर्मा कार्पोरेशन लिमिटेड को उच्च औद्योगिक  
उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था,



और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि लोकाहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम को उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्ध के अधीन 30 सितम्बर, 1983 तक, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, की और अवधि तक रखा जाए ।

अतः, अब केंद्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 18-कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि ऊपर वर्णित आदेश 30 सितम्बर, 1983 तक, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है की और अवधि तक प्रभावी बना रहे ।

[फा. सं. 2(2)/80-सी.यू.एस.]

ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

#### ORDER

New Delhi, the 30th September, 1982

No. S.O. 698(E)/18AA/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No S.O. 22(E)/18AA/IDRA/73, dated the 15th January, 1973 (as amended from time to time), the management of the industrial undertaking known as Shri Janki Sugar Mills and Company, Dohwala, District Dehradun (Uttar Pradesh) was taken over under sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period upto and inclusive of 30th September, 1982 and the Uttar Pradesh State Sugar Corporation Limited was authorised to take over the management of the said industrial undertaking ;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Uttar Pradesh State Sugar Corporation Limited for a further period upto and inclusive of 30th September, 1983.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA read with the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the order mentioned above shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of 30th September, 1983.

[F. No. 2(2)/80-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.